

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

No. 34]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2005/माघ 11, 1926

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2005/MAGHA 11, 1926

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सं. आरएस. 1/1/2005-एल.—राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 2005 को दिया गया निम्नलिखित आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा को शुक्रवार, 25 फरवरी, 2005 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमन्त्रित करता हूँ।

जनवरी 31, 2005

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

राष्ट्रपति।”

योगेन्द्र नारायण, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2005

No. RS 1/1/2005-L.—The following Order by the President dated the 31st January, 2005, is published for general information :—

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Friday, the 25th February, 2005 at 11.00 A.M.

The 31st January, 2005

A. P. J. ABDUL KALAM

President.”

YOGENDRA NARAIN, Secy. General

328 GI:2005